



MISSION IBPS 2024



REASONING

LIVE QUIZ
(DAY 9)

आओ देखें, किसमें कितना है दम...

 **LIVE** 09:00 AM



Join my **TELEGRAM GROUP**



@reasoningbybasantsir



Daily PDF of all YT sessions



Discussion / Doubt Solving



Direct Interaction with me



Quiz



Polls





Live Quiz (Exam Based)

Seven people P, Q, R, S, T, U, and V have to attend a seminar on seven different days of the same week starting from Monday and ending on Sunday, but not necessarily in the same order. Q attends a seminar on Thursday. Only one person attends the seminar between R and S. U attends the seminar after S. Only one person attends the seminar between Q and V. The number of people who attend the seminar before P is same as the number of people who attend the seminar after R. P attends the seminar immediately after V.

P, Q, R, S, T, U और V नामक सात व्यक्तियों को एक ही सप्ताह के सोमवार से आरंभ होने वाले और रविवार को समाप्त होने वाले सेमिनार में सात भिन्न दिनों में भाग लेना है, जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो। Q गुरुवार को सेमिनार में भाग लेता है। R और S के बीच में केवल एक व्यक्ति सेमिनार में भाग लेता है। U, S के बाद सेमिनार में भाग लेता है। Q और V के बीच में केवल एक व्यक्ति सेमिनार में भाग लेता है। P से पहले सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, R के बाद सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। P, V के ठीक बाद सेमिनार में भाग लेता है। निम्नलिखित में से कौन से दिन T को सेमिनार में भाग लेना है?



Live Quiz (Exam Based)

Seven people P, Q, R, S, T, U, and V have to attend a seminar on seven different days of the same week starting from Monday and ending on Sunday, but not necessarily in the same order. Q attends a seminar on Thursday. Only one person attends the seminar between R and S. U attends the seminar after S. Only one person attends the seminar between Q and V. The number of people who attend the seminar before P is same as the number of people who attend the seminar after R. P attends the seminar immediately after V.

On which of the following days does T have to attend the seminar?

1. Sunday
2. Monday
3. Tuesday
4. Wednesday
5. Friday



Live Quiz (Exam Based)

Seven people P, Q, R, S, T, U, and V have to attend a seminar on seven different days of the same week starting from Monday and ending on Sunday, but not necessarily in the same order. Q attends a seminar on Thursday. Only one person attends the seminar between R and S. U attends the seminar after S. Only one person attends the seminar between Q and V. The number of people who attend the seminar before P is same as the number of people who attend the seminar after R. P attends the seminar immediately after V.

Who among the following has to attend the seminar on Saturday?

1. U
2. V
3. T
4. P
5. Q



Live Quiz (Exam Based)

Seven people P, Q, R, S, T, U, and V have to attend a seminar on seven different days of the same week starting from Monday and ending on Sunday, but not necessarily in the same order. Q attends a seminar on Thursday. Only one person attends the seminar between R and S. U attends the seminar after S. Only one person attends the seminar between Q and V. The number of people who attend the seminar before P is same as the number of people who attend the seminar after R. P attends the seminar immediately after V.

If every person is made to attend the seminar in alphabetical order from Monday to Sunday, the day of attending the seminar of how many people will remain unchanged?

1. None
2. One
3. Two
4. Three
5. Four



Live Quiz (Exam Based)

Seven people P, Q, R, S, T, U, and V have to attend a seminar on seven different days of the same week starting from Monday and ending on Sunday, but not necessarily in the same order. Q attends a seminar on Thursday. Only one person attends the seminar between R and S. U attends the seminar after S. Only one person attends the seminar between Q and V. The number of people who attend the seminar before P is same as the number of people who attend the seminar after R. P attends the seminar immediately after V.

On which of the following days does S have to attend the seminar?

1. Monday
2. Tuesday
3. Wednesday
4. Thursday
5. Friday



Live Quiz (Exam Based)

Seven people P, Q, R, S, T, U, and V have to attend a seminar on seven different days of the same week starting from Monday and ending on Sunday, but not necessarily in the same order. Q attends a seminar on Thursday. Only one person attends the seminar between R and S. U attends the seminar after S. Only one person attends the seminar between Q and V. The number of people who attend the seminar before P is same as the number of people who attend the seminar after R. P attends the seminar immediately after V.

Who among the following has to attend the seminar on Saturday?

1. T
2. V
3. U
4. S
5. P



Live Quiz (Exam Based)

Twelve people are sitting in two rows that are parallel to each other. In row 1- A, B, C, D, E, and F are sitting facing south. In row 2- P, Q, R, S, T, and U are sitting facing north. D and R are not opposite to each other. Three people sit between B and F, who sits to the right of C. C sits opposite to Q. Four persons sit between S and T. Two people sit between P and R, who is not an immediate neighbor of T. Two people sit between A and C. Q sits second to the right of S.

बारह व्यक्ति दो पंक्तियों में बैठे हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं। पंक्ति 1 में- A, B, C, D, E और F दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। पंक्ति 2 में- P, Q, R, S, T और U उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। D और R एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। तीन व्यक्ति B और F के मध्य बैठे हैं, जो C के दायें बैठा है। C, Q के विपरीत बैठा है। S और T के बीच चार व्यक्ति बैठे हैं। P और R के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जो T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दो व्यक्ति बैठे हैं A और C के बीच। Q, S के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है।



Live Quiz (Exam Based)

Twelve people are sitting in two rows that are parallel to each other. In row 1- A, B, C, D, E, and F are sitting facing south. In row 2- P, Q, R, S, T, and U are sitting facing north. D and R are not opposite to each other. Three people sit between B and F, who sits to the right of C. C sits opposite to Q. Four persons sit between S and T. Two people sit between P and R, who is not an immediate neighbor of T. Two people sit between A and C. Q sits second to the right of S.

How many of them sit between F and D?

A. Can't be determined

B. Two

C. Three

D. One

E. Four



Live Quiz (Exam Based)

Twelve people are sitting in two rows that are parallel to each other. In row 1- A, B, C, D, E, and F are sitting facing south. In row 2- P, Q, R, S, T, and U are sitting facing north. D and R are not opposite to each other. Three people sit between B and F, who sits to the right of C. C sits opposite to Q. Four persons sit between S and T. Two people sit between P and R, who is not an immediate neighbor of T. Two people sit between A and C. Q sits second to the right of S.

Who sits opposite to D?

- A. P**
- B. R**
- C. T**
- D. U**
- E. Can't be determined**



Live Quiz (Exam Based)

Twelve people are sitting in two rows that are parallel to each other. In row 1- A, B, C, D, E, and F are sitting facing south. In row 2- P, Q, R, S, T, and U are sitting facing north. D and R are not opposite to each other. Three people sit between B and F, who sits to the right of C. C sits opposite to Q. Four persons sit between S and T. Two people sit between P and R, who is not an immediate neighbor of T. Two people sit between A and C. Q sits second to the right of S.

Who sits immediate right of S?

- A. U**
- B. P**
- C. Q**
- D. R**
- E. None of these**



Live Quiz (Exam Based)

Twelve people are sitting in two rows that are parallel to each other. In row 1- A, B, C, D, E, and F are sitting facing south. In row 2- P, Q, R, S, T, and U are sitting facing north. D and R are not opposite to each other. Three people sit between B and F, who sits to the right of C. C sits opposite to Q. Four persons sit between S and T. Two people sit between P and R, who is not an immediate neighbor of T. Two people sit between A and C. Q sits second to the right of S.

Find the odd.

- A. C**
- B. B**
- C. R**
- D. F**
- E. P**



Live Quiz (Exam Based)

Twelve people are sitting in two rows that are parallel to each other. In row 1- A, B, C, D, E, and F are sitting facing south. In row 2- P, Q, R, S, T, and U are sitting facing north. D and R are not opposite to each other. Three people sit between B and F, who sits to the right of C. C sits opposite to Q. Four persons sit between S and T. Two people sit between P and R, who is not an immediate neighbor of T. Two people sit between A and C. Q sits second to the right of S.

How many of them sit to the left of E?

- A. Three**
- B. Five**
- C. Four**
- D. Two**
- F. None of these**



Live Quiz (Exam Based)

In a play ground some of players standing. Puneet is 3m towards south of Qamar who is 4m towards east of Rohit. Sobhit is 6m towards south of Rohit while Tarun is 8m towards west of Sobhit. Vinit is 7m towards west of Umesh who is 3m north of Tarun.

खेल के मैदान में कुछ खिलाड़ी खड़े हैं। पुनीत क़मर से 3 मीटर दक्षिण में है जो रोहित से 4 मीटर पूर्व में है। शोभित, रोहित से 6 मीटर दक्षिण की ओर है जबकि तरूण, सुनील से 8 मीटर पश्चिम की ओर है। विनीत, उमेश से 7 मीटर पश्चिम की ओर है जो तरूण से 3 मीटर उत्तर में है।



Live Quiz (Exam Based)

In a play ground some of players standing. Puneet is 3m towards south of Qamar who is 4m towards east of Rohit. Sobhit is 6m towards south of Rohit while Tarun is 8m towards west of Sobhit. Vinit is 7m towards west of Umesh who is 3m north of Tarun.

What is the direction of Umesh with respect to Puneet?

- 1) South-East
- 2) East
- 3) West
- 4) North-West
- 5) None of these



Live Quiz (Exam Based)

In a play ground some of players standing. Puneet is 3m towards south of Qamar who is 4m towards east of Rohit. Sobhit is 6m towards south of Rohit while Tarun is 8m towards west of Sunil. Vinit is 7m towards west of Umesh who is 3m north of Tarun.

What is the shortest distance between Rohit and Tarun?

- 1) 11m
- 2) 14m
- 3) 12m
- 4) 10m
- 5) 13m



Live Quiz (Exam Based)

If in the word '**ADVANCE**', all the vowels are replaced with the next letters and all the consonants are replaced with the previous letters from the English Alphabet. Now if all vowels are deleted how many consonants are remain there?

यदि शब्द '**ADVANCE**' में, सभी स्वरों को अगले अक्षरों से बदल दिया जाता है और सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षरों से बदल दिया जाता है। अब यदि सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कितने व्यंजन शेष रह जाते हैं?

- 1) Three
- 2) Four
- 3) Five
- 4) Six
- 5) Seven



Live Quiz (Exam Based)

There are seven persons namely A, B, C, D, E, F, and G. They all are sitting in a row facing north. G sits second from one of the ends. E has equal number of persons to his left and right side. F sits on the extreme left end of the row. There are three persons between F and B. A sits immediate right of C. A does not sit at the corner.

A, B, C, D, E, F, और G नामक सात व्यक्ति हैं। वे सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। G किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। E के बायें और दायीं ओर व्यक्तियों की संख्या समान है। F पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। F और B के बीच तीन व्यक्ति हैं। A, C के ठीक दायें बैठा है। A कोने पर नहीं बैठा है।



Live Quiz (Exam Based)

There are seven persons namely A, B, C, D, E, F, and G. They all are sitting in a row facing north. G sits second from one of the ends. E has equal number of persons to his left and right side. F sits on the extreme left end of the row. There are three persons between F and B. A sits immediate right of C. A does not sit at the corner.

Who is sitting second to the left of E?

- 1) A
- 2) C
- 3) G
- 4) F
- 5) B



Live Quiz (Exam Based)

There are seven persons namely A, B, C, D, E, F, and G. They all are sitting in a row facing north. G sits second from one of the ends. E has equal number of persons to his left and right side. F sits on the extreme left end of the row. There are three persons between F and B. A sits immediate right of C. A does not sit at the corner.

How many persons are sitting between A and G?

- 1) Five
- 2) Two
- 3) Four
- 4) Three
- 5) One



Live Quiz (Exam Based)

There are seven persons namely A, B, C, D, E, F, and G. They all are sitting in a row facing north. G sits second from one of the ends. E has equal number of persons to his left and right side. F sits on the extreme left end of the row. There are three persons between F and B. A sits immediate right of C. A does not sit at the corner.

Who is sitting third from the right end?

- 1) D
- 2) B
- 3) E
- 4) A
- 5) C



Live Quiz (Exam Based)

There are seven persons namely A, B, C, D, E, F, and G. They all are sitting in a row facing north. G sits second from one of the ends. E has equal number of persons to his left and right side. F sits on the extreme left end of the row. There are three persons between F and B. A sits immediate right of C. A does not sit at the corner.

How many persons are sitting to the left of G?

- 1) Four
- 2) Five
- 3) One
- 4) Two
- 5) Three



Live Quiz (Exam Based)

There are seven persons namely A, B, C, D, E, F, and G. They all are sitting in a row facing north. G sits second from one of the ends. E has equal number of persons to his left and right side. F sits on the extreme left end of the row. There are three persons between F and B. A sits immediate right of C. A does not sit at the corner.

Who is sitting exactly between F and B?

- 1) C
- 2) B
- 3) D
- 4) E
- 5) A



Live Quiz (Exam Based)

Statement: $Y \geq C < O \geq F < R = B$

Conclusions: I. $B > F$
II. $R > C$

- 1) Only I follows
- 2) Only II follows
- 3) Either I or II follow
- 4) Neither I nor II follow
- 5) Both I and II follow



Live Quiz (Exam Based)

Statement: $E < U > L > K \leq T = H \leq Q$

Conclusions: I. $U > H$
II. $T \leq Q$

- 1) Only I follows
- 2) Only II follows
- 3) Either I or II follow
- 4) Neither I nor II follow
- 5) Both I and II follow



Live Quiz (Exam Based)

Statement: $Y > U \geq Z \geq K = X \leq B \leq A$

Conclusions: I. $U = X$
II. $U > X$

- 1) Only I follows
- 2) Only II follows
- 3) Either I or II follow
- 4) Neither I nor II follow
- 5) Both I and II follow



Live Quiz (Exam Based)

Statement: $S > L < P = T \geq V > R$

Conclusions: I. $P > R$
II. $S > V$

- 1) Only I follows
- 2) Only II follows
- 3) Either I or II follow
- 4) Neither I nor II follow
- 5) Both I and II follow



Live Quiz (Exam Based)

If it is possible to make a meaningful word with the third, fifth, ninth, and tenth letters of the word “**PERSEVERANCE**” which of the following will be the second letter from the right end of that newly formed word? If more than one such word can be made, give M as the answer and if no such word can be made, give Y as the answer.

यदि शब्द “**PERSEVERANCE**” के तीसरे, पांचवें, नौवें और दसवें अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उस नए बने शब्द के दायें अंत से दूसरा अक्षर होगा? यदि इस प्रकार के एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, तो उत्तर के रूप में M दें और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो उत्तर के रूप में Y दें।

- 1) **A**
- 2) **Y**
- 3) **R**
- 4) **M**
- 5) **E**



Live Quiz (Exam Based)

Eight persons A, B, C, D, E, F, G, and H's experiences after joining a bank from different years i.e. 1982, 1983, 1992, 1996, 1997, 2004, 2006, 2013 (not necessarily in the same order) are calculated on the base year 2022. D's experience is calculated from an odd numbered year but not from 1997. The difference between A and D is 9 years. G's has worked for the time which is multiple of 13 but not a multiple of 3. The difference between H and F is more than the difference between A and D but less than 11 years. B has worked for perfect square number years. C joined after F but before A. F did not join first

आठ व्यक्ति A, B, C, D, E, F, G और H के अनुभव अलग-अलग वर्षों अर्थात् 1982, 1983, 1992, 1996, 1997, 2004, 2006, 2013 (जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों) से एक बैंक में शामिल होने के बाद आधार वर्ष 2022 पर गणना की जाती है। D के अनुभव की गणना एक विषम संख्या वाले वर्ष से की जाती है, लेकिन 1997 से नहीं। A और D के बीच का अंतर 9 वर्ष है। G ने उस समय तक कार्य किया है जो 13 का गुणज है लेकिन 3 का गुणज नहीं है। H और F के बीच का अंतर A और D के बीच के अंतर से अधिक है लेकिन 11 वर्ष से कम है। B ने पूर्ण वर्ग संख्या वर्षों तक कार्य किया है। C, F के बाद लेकिन A से पहले शामिल हुआ। F पहले शामिल नहीं हुआ



Live Quiz (Exam Based)

Eight persons A, B, C, D, E, F, G, and H's experiences after joining a bank from different years i.e. 1982, 1983, 1992, 1996, 1997, 2004, 2006, 2013 (not necessarily in the same order) are calculated on the base year 2022. D's experience is calculated from an odd numbered year but not from 1997. The difference between A and D is 9 years. G's has worked for the time which is multiple of 13 but not a multiple of 3. The difference between H and F is more than the difference between A and D but less than 11 years. B has worked for perfect square number years. C joined after F but before A. F did not join first
H's experience is calculated from the year ?

- 1) 1997
- 2) 1992
- 3) 1982
- 4) 2013
- 5) 2004



Live Quiz (Exam Based)

Eight persons A, B, C, D, E, F, G, and H's experiences after joining a bank from different years i.e. 1982, 1983, 1992, 1996, 1997, 2004, 2006, 2013 (not necessarily in the same order) are calculated on the base year 2022. D's experience is calculated from an odd numbered year but not from 1997. The difference between A and D is 9 years. G's has worked for the time which is multiple of 13 but not a multiple of 3. The difference between H and F is more than the difference between A and D but less than 11 years. B has worked for perfect square number years. C joined after F but before A. F did not join first

As many people joined before G as after __?

- 1) A
- 2) D
- 3) F
- 4) C
- 5) H



Live Quiz (Exam Based)

Eight persons A, B, C, D, E, F, G, and H's experiences after joining a bank from different years i.e. 1982, 1983, 1992, 1996, 1997, 2004, 2006, 2013 (not necessarily in the same order) are calculated on the base year 2022. D's experience is calculated from an odd numbered year but not from 1997. The difference between A and D is 9 years. G's has worked for the time which is multiple of 13 but not a multiple of 3. The difference between H and F is more than the difference between A and D but less than 11 years. B has worked for perfect square number years. C joined after F but before A. F did not join first

How many People Joined after B?

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 1
- 5) None



Live Quiz (Exam Based)

Eight persons A, B, C, D, E, F, G, and H's experiences after joining a bank from different years i.e. 1982, 1983, 1992, 1996, 1997, 2004, 2006, 2013 (not necessarily in the same order) are calculated on the base year 2022. D's experience is calculated from an odd numbered year but not from 1997. The difference between A and D is 9 years. G's has worked for the time which is multiple of 13 but not a multiple of 3. The difference between H and F is more than the difference between A and D but less than 11 years. B has worked for perfect square number years. C joined after F but before A. F did not join first

Find the odd one out.

- 1) H
- 2) F
- 3) D
- 4) B
- 5) G



Live Quiz (Exam Based)

Seven persons are working in the same company on different designations. The person working on that designation is named P, Q, R, S, T, U, and V but not necessarily in the same order. They have different designations starting from the clerk, officer, Assistant Manager, manager, Assistant General manager, General manager, and Director. Director is the topmost post of the company and the clerk is the lowermost post of the company. Only four persons sit between P and Q. P is not working at a position of officer nor as a clerk. There are two designations between R and S. R is senior to S. R is a General manager or Director. More than two designations are there between T and U. U is working as a designation of clerk in the company.

सात व्यक्ति एक ही कंपनी में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। उन पदों पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम P, Q, R, S, T, U और V है लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। उनके अलग-अलग पद लिपिक, अधिकारी, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और निदेशक है। निदेशक कंपनी का सर्वोच्च पद है और लिपिक कंपनी का सबसे निचला पद है। P और Q के मध्य केवल चार व्यक्ति हैं। P न तो अधिकारी के पद पर और न ही लिपिक के रूप में कार्य कर रहा है। R और S के मध्य दो पद हैं। R, S से वरिष्ठ है। R एक महाप्रबंधक या निदेशक है। T और U के बीच दो से अधिक पद हैं। U कंपनी में लिपिक के पद पर कार्यरत है।



Live Quiz (Exam Based)

Seven persons are working in the same company on different designations. The person working on that designation is named P, Q, R, S, T, U, and V but not necessarily in the same order. They have different designations starting from the clerk, officer, Assistant Manager, manager, Assistant General manager, General manager, and Director. Director is the topmost post of the company and the clerk is the lowermost post of the company. Only four persons sit between P and Q. P is not working at a position of officer nor as a clerk. There are two designations between R and S. R is senior to S. R is a General manager or Director. More than two designations are there between T and U. U is working as a designation of clerk in the company.

Which of the following person working as a Officer?

- 1) P
- 2) Q
- 3) R
- 4) S
- 5) V



Live Quiz (Exam Based)

Seven persons are working in the same company on different designations. The person working on that designation is named P, Q, R, S, T, U, and V but not necessarily in the same order. They have different designations starting from the clerk, officer, Assistant Manager, manager, Assistant General manager, General manager, and Director. Director is the topmost post of the company and the clerk is the lowermost post of the company. Only four persons sit between P and Q. P is not working at a position of officer nor as a clerk. There are two designations between R and S. R is senior to S. R is a General manager or Director. More than two designations are there between T and U. U is working as a designation of clerk in the company.

Whose designation is just above the S's designation?

- 1) Manager
- 2) Officer
- 3) V
- 4) Both Options 2 and 3
- 5) Both options 1 and 3



Live Quiz (Exam Based)

Seven persons are working in the same company on different designations. The person working on that designation is named P, Q, R, S, T, U, and V but not necessarily in the same order. They have different designations starting from the clerk, officer, Assistant Manager, manager, Assistant General manager, General manager, and Director. Director is the topmost post of the company and the clerk is the lowermost post of the company. Only four persons sit between P and Q. P is not working at a position of officer nor as a clerk. There are two designations between R and S. R is senior to S. R is a General manager or Director. More than two designations are there between T and U. U is working as a designation of clerk in the company.

How many designation between P and V?

- 1) One
- 2) Three
- 3) More than three
- 4) Two
- 5) None of the above



Live Quiz (Exam Based)

Which of the following statement is correct regarding V?

- I) V is a manager.
- II) The position which is just above V is T's position.
- III) Two designation between P and V.

- 1) Only statement I is correct.
- 2) Only statement II is correct.
- 3) Only statement III is correct.
- 4) All are correct.
- 5) All are incorrect.



Live Quiz (Exam Based)

Input: 56148 34195 41683 63215 52197

Step I: 14568 13459 13468 12356 12579

Step II: 1158 1129 1138 1106 1149

Step III: 0048 0028 0028 0006 0048

Step IV: 12 10 10 06 12

Step V: 06 10 10 12 12

Step VI: 036 10 10 14 14

Input: 43156 92146 81247 53179 69432 47269



Live Quiz (Exam Based)

Input: 56148 34195 41683 63215 52197

Step I: 14568 13459 13468 12356 12579

Step II: 1158 1129 1138 1106 1149

Step III: 0048 0028 0028 0006 0048

Step IV: 12 10 10 06 12

Step V: 06 10 10 12 12

Step VI: 036 10 10 14 14

Input: 43156 92146 81247 53179 69432 47269

In the last step, which number is 3rd from the right end of the given input?

- a) 41
- b) 16
- c) 14
- d) 18
- e) None of these



Live Quiz (Exam Based)

Input: 56148 34195 41683 63215 52197

Step I: 14568 13459 13468 12356 12579

Step II: 1158 1129 1138 1106 1149

Step III: 0048 0028 0028 0006 0048

Step IV: 12 10 10 06 12

Step V: 06 10 10 12 12

Step VI: 036 10 10 14 14

Input: 43156 92146 81247 53179 69432 47269

What is the sum of last three numbers in step IV of the given input?

- a) 30
- b) 58
- c) 46
- d) 40
- e) None of these



Live Quiz (Exam Based)

Input: 56148 34195 41683 63215 52197

Step I: 14568 13459 13468 12356 12579

Step II: 1158 1129 1138 1106 1149

Step III: 0048 0028 0028 0006 0048

Step IV: 12 10 10 06 12

Step V: 06 10 10 12 12

Step VI: 036 10 10 14 14

Input: 43156 92146 81247 53179 69432 47269

Which number is 4th from the left end in step II of the given input?

- a) 1129
- b) 1159
- c) 1126
- d) 2936
- e) None of these



Live Quiz (Exam Based)

Input: 56148 34195 41683 63215 52197

Step I: 14568 13459 13468 12356 12579

Step II: 1158 1129 1138 1106 1149

Step III: 0048 0028 0028 0006 0048

Step IV: 12 10 10 06 12

Step V: 06 10 10 12 12

Step VI: 036 10 10 14 14

Input: 43156 92146 81247 53179 69432 47269

What is the absolute difference of the 3rd number from right end in step III and 2nd number from the left end in step III?

- a) 37
- b) 26
- c) 25
- d) 20
- e) None of these



Live Quiz (Exam Based)

Input: 56148 34195 41683 63215 52197

Step I: 14568 13459 13468 12356 12579

Step II: 1158 1129 1138 1106 1149

Step III: 0048 0028 0028 0006 0048

Step IV: 12 10 10 06 12

Step V: 06 10 10 12 12

Step VI: 036 10 10 14 14

Input: 43156 92146 81247 53179 69432 47269

Which among the following is the first number from left end in step IV of the given input?

- a) 08
- b) 10
- c) 16
- d) 18
- e) None of these

Join my **TELEGRAM GROUP**



@reasoningbybasantsir



Daily PDF of all YT sessions



Discussion / Doubt Solving



Direct Interaction with me



Quiz



Polls

